

Date: 18.04.2023

LATL/ SEC/PB/REG30/2023-24

BSE Limited	The National Stock Exchange of India Limited
Listing & Compliance Department	Listing & Compliance Department
Phiroze Jeejeebhoy Towers,	Exchange Plaza, C-1 Block G,
Dalal Street, Mumbai - 400001	Bandra Kurla Complex,
	Bandra (E), Mumbai – 400051
Security Code : 532796	Symbol: LUMAXTECH

Sub: Submission of e-copies of Newspaper Advertisement regarding completion of dispatch of Postal Ballot Notice through email only.

Ref: Regulation 30 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations").

Dear Sir/ Ma'am,

Pursuant to the provisions of Regulation 30, 47 and other applicable regulations of SEBI Listing Regulations, please find enclosed herewith the e-copies of Newspaper Advertisement, intimating about the completion of dispatch of Postal Ballot Notice electronically to the Members of the Company, published on April 18, 2023 in the Following Newspapers:

- 1. Financial Express (English- All Edition); and
- 2. Jansatta (Hindi- Delhi Edition).

The Published E-copies of aforesaid advertisements will also be made available on the website of the Company at www.lumaxworld.in/lumaxautotech.

You are requested to take the above information on records and oblige.

Thanking you, Yours faithfully,

For Lumax Auto Technologies Limited

Raajesh Kumar Gupta Vice President & Group Head (Secretarial, Legal & Internal Audit) Membership No. A8709

Encl: As stated Above

Lumax Auto Technologies Limited Plot No. -878, Udyog Vihar Phase-V, Gurugram-122016 Haryana, India

T +91 124 4760000 E shares@lumaxmail.com

www.lumaxworld.in



FEDERAL BANK

YOUR PERFECT BANKING PARTNER

THE FEDERAL BANK LTD.REG.OFFICE: PB. No: 103, FEDERAL TOWERS, ALUVA, KERALA, INDIA - 683 101 Phone: 0484-2622263, E-MAIL: secretarial@federalbank.co.in, Website: www.federalbank.co.in, CIN: L65191KL1931PLC000368

NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATES

Notice is hereby given that the following Share Certificates have been reported lost. Letter of Confirmation in lieu of Share Certificates reported as lost shall be issued, if no valid objection is received within 15 days from the date of publication of this notice.

SL No.	NAME	FOLIO	CERT.NO.	DIST.NO.	NO. OF SHARES				
1	RAMACHANDRAN	HANDRAN 21745		11077116- 11081615	9000				
ľ	тк	217-10	тк = 0.10		тк 2010		1705193578- 1705198077		
2	тк	33193	504608	13113966- 13115465	3000				
	RAMACHANDRAN 33193	603987	1707041283- 1707042782	3000					

Place: Aluva Date: 18.04.2023

Samir P Raidev Company Secretary

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

MUTUAL



14 FINANCIAL EXPRESS

GOVERNMENT OF TAMIL NADU

RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYAT RAJ DEPARTMENT

Villupuram District Notice Inviting Re-Tender

Tender for supply of Steel Rods under PMAY (G) scheme for the year 2022-23

- For details, visit www.tntenders.gov.in
- 2. e-Bids are invited by the Additional Collector (Development), District Rural Development Agency, Villupuram District for the supply of Steel Rods under PMAY (G) (under two cover system).
- 3. The package wise bid documents can be downloaded free of cost from www.tntenders.gov.in from 19.04.2023 to 04.05.2023.
- 4. Common date and time for downloading of Bid document, submission and opening
 - i) Last Date and Time for downloading
 - and Online Submission of Bid Documents: 04.05.2023 upto 3.00 PM

e-Bid Documents : 04.05.2023, 4.00 PM onwards

DIPR/ 2160 /TENDER/2023 "சோதனை கடந்து சுதத்திரம் அடைந்தோம், சாதனை புரிந்து சரித்திரம் படைப்போம்"

ii) Date and Time of online opening of

Additional Collector (Dev.,) District Rural Development Agency, Villupuram District.



KINTECH RENEWABLES LIMITED

Regd. Off.: Kintech House, 8, Shivalik Plaza, Opp. AMA, IIM Road, Ahmedabad - 380 015, Gujarat

Corporate office: Unit No. 705 GDITL Tower Plot No. B-8 Netaji Subhash Place. Pitampura, Delhi 110034 E-Mail: cs@kintechrenewables.com, Website: www.kintechrenewables.com; Tel. No.: (079) 26303064; CIN: L40105GJ1985PLC013254

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2023

Sr. No.	Particulars	Quarter ended 31st March, 2023	Quarter ended 31st March, 2022	A PUBLICATION OF THE PROPERTY	Year ended 31st March, 2022	
		Audited	Audited	Audited	Audited	
1	Total Income from Operations		23	155.88	3.74	
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional items)	(17.57)	28.04	26,69	40.85	
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	(17.57)	28.04	26.69	40.85	
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	(12.90)	20.74	19.71	30.07	
5	Total Comprehensive Income for the period [(Comprising Profit / (Loss) for the period (after Tax) and Other Comprehensive Income (after Tax)]		-			
6	Equity Share Capital (of Rs.10/- each)	100.00	100.00	100.00	100.00	
7	Earnings Per Share of Rs 10/- each (For Continuing Operations- Not Annualised) (In Rs.)					
	1. Basic	(1.29)	2.07	1.97	3.01	
	2. Diluted	(1.29)	2.07	1.97	3.01	

Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the Audited financial results is available on the website of Stock Exchange, www.bseindia.com and on the website of the Company at www.kintechrenewables.com.

> For and on behalf of the Board of Directors of KINTECH RENEWABLES LIMITED

Shiv Kumar Bansal Date: April 17, 2023 Whole Time Director



16 Debt Service Coverage Ratio

Place: Mumbai

Date: 17th April, 2023

Place: Mumbai

Date: April 17, 2023

17 Interest Service Coverage Ratio

Place: Delhi

VASTU FINSERVE INDIA PRIVATE LIMITED

Registered Office: 203/204, "A" Wing, 2nd Floor, Navbharat Estates,

Zakaria Bunder Road, Sewri (West), Mumbai 400 015. CIN: U65990MH2018PTC314935 Tel:022 2419 0911 | Website: vastufinserve.com

STRACT OF AUDITED FINANCIAL DEGILITS FOR THE OLIAPTED AND

		Standalone						
Sr. No.	Particulars	Quarter ended 31.03.2023	Quarter ended 31.03.2022	Year ended 31.03.2023	Year ended 31.03.2022			
		(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)			
1	Total Income from Operations	2,876.69	1,384.51	8,078.20	4,013.80			
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	228.20	381.64	868.66	524.46			
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	228.20	381.64	868.66	524.46			
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	554.90	409.40	1,105.12	544.70			
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	546.79	396.52	1,102.68	540.22			
6	Paid-up Equity Share Capital	11,861.06	8,754.02	11,861.06	8,754.02			
7	Reserves (excluding Revaluation Reserves)	985.14	-117.55	985.14	-117.55			
8	Securities Premium Account	18,137.73	3,745.98	18,137.73	3,745.98			
9	Net Worth	30,983.93	12,382.45	30,983.93	12,382.45			
10	Paid up Debt Capital/Outstanding Debt	70,666.68	23,037.02	70,666.68	23,037.02			
11	Outstanding redeemable preference shares	200			-			
12	Debt Equity Ratio	2.28	1.86	2.28	1.86			
13	Earnings Per Share (of ₹.10/- each) (for continuing and discontinued operations)							
	Basic EPS (in ₹.)	0.52	0.47	1.11	0.64			
	Diluted EPS (in ₹.)	0.52	0.47	1.11	0.64			
14	Capital Redemption Reserve	NA	NA.	NA	NA			
15	Debenture Redemption Reserve	NA	NA NA	NA	NA			

 a) The above is an extract of the detailed format of quarter and year ended financial results filed with the BSE Limited under Regulation 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the guarter and year ended financial results are available on the websites of BSE Limited and the Company at www.bseindia.com and www.vastufinserve.com respectively.

NA

NA

NA

b) For the other line items referred in regulation 52 (4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, pertinent disclosures have been made to the BSE Limited and can be accessed at www.bseindia.com

 Figures of the previous period have been regrouped/reclassified wherever necessary to conform to current period's classification/disclosure.

For Vastu Finserve India Private Limited

NA

NA

NA

NA

Particulars

Sandeep Menon Whole Time Director (DIN 02032154)

Lumax Auto Technologies Limited CIN: L31909DL1981PLC349793

Registered Office: 2[™] Floor, Harbans Bhawan-II, Commercial Complex, Nangal Raya, New Delhi -110046, Phone: 011 49857832

DK JAIN

Email: shares@lumaxmail.com; Website: www.lumaxworld.in/lumaxautotech NOTICE OF POSTAL BALLOT TO THE MEMBERS

NOTICE is hereby given that pursuant to the provisions of Sections 108.

110 and all other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ("the Act"), read with Rule 20 & 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended ("the Rules"), General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 22/2020, 33/2020, 39/2020, 10/2021 20/2021, 03/2022 and 11/2022 dated April 8, 2020, April 13, 2020, June 15, 2020, September 28, 2020, December 31, 2020, June 23, 2021. December 08, 2021, May 05, 2022 and December 28, 2022 respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") (collectively "MCA Circulars"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force, Secretarial Standard - 2 on General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India ("ICSI"), and other applicable laws and regulations, if any, the Company has on Monday, April 17, 2023, completed the dispatch of the Postal Ballot Notice only through e-mail to Members whose names appeared in the Register of Members/List of Beneficial Owners as on Friday, April 14, 2023 (the "cut-off date") and whose email addresses are registered in the records of Depositories viz. National Securities Depository Limited ("NSDL") and Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") and/or with the Company and/or with the Company's Registrar and Share Transfer Agent viz. Bigshare Services Private Limited ("Bigshare") to seek consent/approval of the Members of Lumax Auto Technologies Limited ("Company") for the resolution mentioned in the Postal Ballot Notice. In accordance with the abovementioned MCA Circulars, physical copies

communication of assent/dissent of the Members would take place through the remote e-voting system ("E-Voting") only. Any person, who is not a member as on the close of business hours of the cut-off date, should treat this notice for information purposes only. The Company has engaged the services of NSDL for providing the remote e-voting facility to the Members of the Company. The detailed

of the Postal Ballot Notice along with the Postal Ballot Form and pre-paid

Business Reply Envelope will not be sent to the Members. The

procedure of E-Voting is enumerated in the Notes to the Postal Ballot Mr. Maneesh Gupta, Practicing Company Secretary, (FCS 4982), has been appointed to Act as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot

and e-voting process in a fair and transparent manner. All members are, therefore, informed that: Date of completion of dispatch/sending of Notice of Postal Ballot is

- Monday, April 17, 2023. The e-voting period shall commence on Wednesday, April 19, 2023
- at 9:00 A.M. (IST) and end on Thursday, May 18, 2023 at 5:00 P.M. (IST). During this period, Members of the Company, holding shares either in physical or dematerialized form, as on the cut-off date, i.e. Friday, April 14, 2023, may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter.
- The voting rights of the Members through Remote E-Voting shall be reckoned based on the proportion of the Equity Shares held by them in the Paid-up Equity Share Capital of the Company as on the close of the business hours on Friday, April 14, 2023 (cut-off date).
- Company viz. www.lumaxworld.in/lumaxautotech as well as on website of NSDL viz. www.evoting.nsdl.com. If e-mail address is not registered with the Company /Registrars and

The Notice of Postal Ballot has also been placed on the website of the

- Transfer Agent of the Company/Depositories, please follow the following procedure for registration of email address and for receipt of login ID and password for e-voting: a) Members holding shares in physical mode and who have not
- registered / updated their email address with the Company are requested to register / update the same by writing to the Registrar & Share Transfer Agent (RTA), Bigshare Services Private Limited at vinod.y@bigshareonline.com
- b) Members holding shares in dematerialised mode are requested to register / update email addresses with their respective Depository

After successful registration of the e-mail address, a copy of this Notice along with the e-voting user ID and password will be sent to your registered e-mail address, upon request received from the member. In case of any queries, Members may write to shares@lumaxmail.com

vi. In case of any queries, the Members may also refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) at https://www.evoting.nsdl.com or contact NSDL on 022 - 4886 7000 and 022- 2499 7000 (toll free) or may send an e-mail request to evoting@nsdl.co.in.

vii. For any grievances in respect of e-voting, Members may contact to: Ms. Sarita Mote

National Securities Depository Limited Unit: Lumax Auto Technologies Limited

Phone: 022-4886 7000 and 022-2499 7000 email: evoting@nsdl.co.in viii. For any grievances in respect of Postal Ballot including e-voting,

Members may contact to: Mr. Raajesh Kumar Gupta

Vice President & Group Head (Secretarial, Legal & Internal Audit)

Lumax Auto Technologies Limited Phone: +0124-4760000 | email: shares@lumaxmail.com

ix. The result of the Postal Ballot (through e-voting) will be declared/

announced on or before 05:00 P.M. (IST) on Saturday, May 20, 2023 at the Registered Office of the Company. The results of the Postal Ballot along with the Scrutinizer's Report will also be displayed on the Company's website i.e. www.lumaxworld.in/lumaxautotech and on website of NSDL viz. www.evoting.nsdl.com. The results will simultaneously be communicated to the Stock Exchanges, where the Company's shares are listed.

By Order of the Board For Lumax Auto Technologies Limited

Raajesh Kumar Gupta Vice President & Group Head (Secretarial, Legal & Internal Audit) Membership No.: A8709

Place: Gurugram Date: April 17, 2023

HATHWAY CABLE AND DATACOM LIMITED

Registered Office: 805/806, Windsor, 8th Floor, Off CST Road, Kalina, Santacruz (East), Mumbai - 400 098 CIN: L64204MH1959PLC011421 Tel: 91-22-4054 2500 Fax: 91-22-4054 2700 Website: www.hathway.com: E-mail: info@hathway.net EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS (STANDALONE AND CONSOLIDATED) OF THE COMPANY FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED MARCH 31, 2023 AND LIMITED REVIEW OF FINANCIAL RESULTS (STANDALONE AND CONSOLIDATED) OF THE COMPANY FOR THE QUARTER ENDED MARCH 31, 2023 Rs. In Crores

Standalone

No.		Quarter ended	Quarter ended	Quarter ended	Year ended	Year ended	Quarter ended	Quarter ended	Quarter ended	Year ended	Year ended
П		March 31, 2023	December 31, 2022	March 31, 2022	March 31, 2023	March 31, 2022	March 31, 2023	December 31, 2022	March 31, 2022	March 31, 2023	March 31, 2022
		(Refer Note 2)	(Unaudited)	(Refer Note 2)	(Audited)	(Audited)	(Refer Note 2)	(Unaudited)	(Refer Note 2)	(Audited)	(Audited)
1	Total Income from Operations	171.18	172.43	162.84	704.69	672.75	487.85	504.53	462.87	1,958.99	1,870.44
2	Net Profit / (Loss) for the period	15.46	19.59	10.78	87.92	66.47	3.36	19.83	15.30	58.66	103.19
	(before Tax and Exceptional items)										
3	Share of net Profit / (Loss) of Joint venture accounted	-	-	-	-	-	(5.34)	13.08	27.09	39.87	81.39
	for using the equity method										
4	Net Profit / (Loss) for the period before tax	15.46	21.02	14.35	88.84	70.04	(9.56)	32.91	32.54	90.44	156.13
	(after Exceptional items)										
5	Net Profit / (Loss) for the period after tax	10.43	15.31	6.13	64.42	47.16	(14.61)	28.77	28.42	65.37	130.35
	(after Exceptional items)										
6	Total Comprehensive Income / (Loss) for the Period	8.26	15.92	7.00	61.40	47.07	(15.65)	29.77	30.13	58.08	128.90
	(comprising Profit / (Loss) for the period after tax and										
	Other Comprehensive Income (after tax))										
7	Paid up Equity Share Capital	354.02	354.02	354.02	354.02	354.02	354.02	354.02	354.02	354.02	354.02
	(Face value of Rs. 2/- each)										
8	Earnings Per Share -	0.06	0.09	0.03	0.36	0.27	(0.08)	0.16	0.16	0.37	0.73
	(Basic, Diluted and not annualised) (in Rs.)						(6)	9	8		
No	tos'-										

The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the quarter and financial year ended March 31, 2023 filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the aforesaid Financial Results is available on the Stock Exchanges website (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website (www.hathway.com).

The financial figures for the quarter ended March 31, 2023 and March 31, 2022 are the balancing figures between audited figures with respect to full financial year ended on March 31, 2023 and March 31, 2022 respectively and the published unaudited year to date figures upto the third quarter ended December 31, 2022 and December 31, 2021 respectively, which were subject to limited review. The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on April 17, 2023.

New Delhi

For Hathway Cable and Datacom Limited Sd/-Saurabh Sancheti Director - DIN: 08349457

financialexp.epap.in

Place: Mumbai

"IMPORTANT"

Authorized Signatory

RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.

ABIRAMI

ABIRAMI FINANCIAL SERVICES (INDIA) LIMITED Corporate Identification Number: L65993TN1993PLC024861

Registered Office - Old No. 11, New No. 2, Parthasarathypuram, 2nd Street, T. Nagar, Chennai- 600017, Tamil Nadu, India; Contact Person: Mrs.Chitra Sivaramakrishnan, Director Telephone No.: 044-49530954; Fax No.: 044-24325643;

PENANCIAL SERVICES

E-mail: abicompliance@afslindia.in / abi@afslindia.in; Website: www.afslindia.in.

CORRIGENDUM TO THE POST BUYBACK ANNOUNCEMENT DATED WEDNESDAY, APRIL 12, 2023 WHICH WAS PUBLISHED IN THE NEWSPAPERS ON THURSDAY, APRIL 13, 2023 FOR THE ATTENTION OF THE EQUITY SHAREHOLDERS BENEFICIAL OWNERS OF THE EQUITY SHARES OF ABIRAMI FINANCIAL SERVICES (INDIA) LIMITED FOR THE BUY-BACK OF EQUITY SHARES THROUGH TENDER OFFER UNDER THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (BUY-BACK OF SECURITIES) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED.

DETAILS OF BUYBACK The following points in the Details of Buyback should be read as follows: 1.1. The settlement of all valid bids was completed by the Clearing Corporations on Tuesday, April 11, 2023. For the Equity Shares accepted under the Buy-back, the Eligible Shareholder were paid out in their settlement bank account from the Clearing

Corporation. If Eligible Shareholders' bank account details were not available or if the funds transfer instruction were rejected by RBI / the concerned bank, due to any reason, then such funds were transferred to the concerned Shareholder Brokei settlement account for onward transfer to such Eligible Shareholders holding Equity Shares in dematerialized form 1.2. The Equity Shares accepted under the Buy-back will be / have been transferred to the Company's demat escrow account. The

unaccepted Equity Shares have been returned to respective Eligible Shareholder / Shareholder Brokers / custodians by the Clearing Corporation on Tuesday, April 11, 2023. 1.3. The extinguishment of 6,00,000 (Six Lakh) Equity Shares accepted under the Buy-back will be completed on or before Tuesday,

April 18, 2023, in accordance with the Buy-back Regulations. 1.4 The shareholding pattern of the Company pre-Buy-back (as on Record Date i.e., Friday, January 27, 2023) and post Buy-back, is

Particulars	Pre Bu	ry-back	Post Buy-back#		
PORT OF THE PORT O	No. of Equity Shares	Amount	No. of Equity Shares	Amount	
Promoters	35,45,000 Equity shares of Rs.10/- each	Rs.3,54,50,000/-	35,45,000 Equity shares of Rs.10/- each	3,54,50,000	
Foreign Investors (Including Non-Resident Indians/ Foreign Mutual Funds)	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e		2003-0012-001000	8.57	
Financial Institutions/ Banks and Mutual Funds promoted by Banks/Institutions	92	S	40		
Others (Public, Bodies, Corporate etc.)	24,55,000 Equity shares of Rs.10/- each	Rs.2,45,50,000/-	18,55,000 Equity shares of Rs.10/- each	1,85,50,000	
Total	60,00,000	Rs.6,00,00,000/-	54,00,000	Rs.5,40,00,000/	

This Corrigendum to the Post Buyback Announcement is expected to be available on the SEBI website at http://www.sebi.gov.in For further details please refer to the Letter of Offer issued.

Issued by the Manager to the Offer MANAGER TO THE BUYBACK OFFER BONANZA PORTFOLIO LIMITED

Bonanza House, Plot No. M-2, Cama Industrial Estate, Walbhat Road, Behind The Hub, Goregaon (East), Mumbai - 400 063

Contact Person: Ms. Swati Agrawal Tel No.: +91 22 62735500/68363700 Email: swati.agrawal@bonanzaonline.com SEBI Registration No.: INM000012306

CIN: U65991DL1993PLC052280 Place: Mumbai Date: Saturday, May 21, 2022

> I HDFC MUTUAL FUND BHAROSA APNO KA

HDFC Asset Management Company Limited A Joint Venture with abrdn Investment Management Limited CIN: L65991MH1999PLC123027

Registered Office: HDFC House, 2nd Floor, H.T. Parekh Marg, 165-166, Backbay Reclamation, Churchgate, Mumbai - 400 020, Phone: 022 66316333 • Toll Free Nos: 1800-3010-6767 / 1800-419-7676 e-mail: hello@hdfcfund.com • Visit us at: www.hdfcfund.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that HDFC Trustee Company Limited, Trustee to HDFC Mutual Fund ("the Fund"), has approved the following distribution under Income Distribution cum Capital Withdrawal ("IDCW") Option of HDFC Arbitrage Fund, an Open-ended Scheme investing in Arbitrage Opportunities ("the Scheme") and fixed Thursday, April 20, 2023 (or the immediately following Business Day, if that day is not a Rusinges Day) as the Record Date for the same

Name of the Scheme / Plan(s) / Option(s)	Amount of Distribution (₹ per Unit)#	Face Value (₹ per unit)	Net Asset Value ("NAV") as on April 13, 2023 (₹ per unit)
HDFC Arbitrage Fund - Wholesale Plan - Regular Plan - Normal IDCW Option (Payout and Reinvestment)			10.514
HDFC Arbitrage Fund - Wholesale Plan - Direct Plan - Normal IDCW Option (Payout and Reinvestment)	0.040		10.962
HDFC Arbitrage Fund - Wholesale Plan - Regular Plan - Monthly IDCW Option (Payout and Reinvestment)	0.040	10.00	10.896
HDFC Arbitrage Fund - Wholesale Plan - Direct Plan - Monthly IDCW Option			10.642

(Payout and Reinvestment) # Amount of distribution per unit will be the lower of that mentioned above or the available distributable

Pursuant to the Distribution, the NAV of the IDCW Option(s) of the above Scheme would fall to the extent of such distribution and statutory levy, if any.

surplus (rounded down to a multiple of five at the third decimal) as on the Record Date.

Amount will be paid, net of applicable tax deducted at source (TDS), to those Unit holders / Beneficial Owners whose names appear in the Register of Unit holders maintained by the Fund / Statements of Beneficial Ownership maintained by the Depositories, as applicable, under the IDCW Option(s) of the aforesaid Scheme on the Record Date (including investors whose valid purchase / switch-in requests are received by the Fund and the funds are available for utilization before cut-off timings in respect of the aforesaid Scheme, on the Record date),

With regard to Unit holders who have opted for Reinvestment facility under the IDCW Option(s), the amount due (net of applicable TDS) will be reinvested, by allotting Units at the ex-Distribution NAV per Unit (adjusted for applicable stamp duty).

Unit holders are advised to note that for redemptions and IDCW declared with effect from January 13, 2023, as per amended SEBI regulations, payout will be done only through electronic mode(s), even where a Unit holder has opted to receive physical instruments. Thus, payment of such amounts shall be made through physical instruments only in exceptional circumstances for reasons to be recorded by the AMC. Accordingly, unit holders who have opted for / have earlier received physical instruments are requested to update their bank account details by / sending us a copy of a cancelled cheque of first / sole holder's bank account.

All updations of PAN, KYC, email address, mobile number, nominee details, etc. should immediately be forwarded to the Investor Services Centers of the Fund (for units held in non-demat form) / Depository Participant (for units held in demat form). Unit holders are also advised to link their PAN with Aadhaar Number. Further, Unit holders can view the Investor Charter available on website of the Fund as well as check for any unclaimed redemptions or IDCW payments.

In view of individual nature of tax consequences, each investor should seek appropriate advice. For HDFC Asset Management Company Limited

(Investment Manager to HDFC Mutual Fund)

Date : April 17, 2023 MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS, READ ALL SCHEME



कृते एवं के लि

(प्रबंध निदेशक

DIN:07002410

आदित्य विकम कनोरि

केडेन्ट ग्लोबल फाइनांस लिमिटेड

(पूर्व में ऑरेकल क्रेडिट लिमिटेड विदित

Criminal Courts, Ludhiana

next date, purpose of case, orders and judgmen as well as other case in formation is available on http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana Kotak Mahindra Bank Ltd

Maseta Address- S/o Maseta R/o

Ward No 20 Nai Basti Fatehull

Aslam Maseta CNR NO: PBLD03-032571-2019 Date: 19-05-2023 Publication Issued To: Aslam

Thakurdwara Moradabad 25560° Uttar Pradesh nereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named ccused/accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of crimina ocedure is hereby issued against you ith a direction that you should appear at 10:00 a.m. or within 30 days from the ersonally before this court on 19-05-2023 date of publication of this proclamation Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the abov said case will be heard and determined as per law, in your absence. for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district notice&district=ludhiana JMIC Ludhiana

Criminal Courts, Ludhiana

udifialia ext date, purpose of case, orders and judg s well as other case in formation is availab ttp://districts.ecourts.gov.in/ludhiana Kotak Mahindra Bank Ltd Vs

Chandar Shekhar Azad CNR NO: PBLD03-032565-2019 Date: 19-05-2023 ublication Issued To: Chandra

Shekhar Azad Address- R/o H. No G-93 Vijay Nagar Sector-9 Ghaziabad Uttar Pardesh 201009 hereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named ccused/accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 19-05-2023 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation Take notice that, in case of default on you part to appear as directed above the abo aid case will be heard and determined as per law, in your absence. for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district

Criminal Courts, Ludhiana _udhiana

otice&district=ludhiana

as well as other case in formation is available on http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana Kotak Mahindra Bank Ltd Vs

Manoj Kumar Karana CNR NO: PBLD03-032552-2019 Date: 19-05-2023 Publication Issued To: Manoi

Kumar Karana Address- R/o G 541 F Ground Floor Kh No 150 Aya Nagar Extn Phase-6 Dehli New Dehli 110047 Whereas it has proved to the satisfaction

of this court that you, the above named ccused/accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of crimina procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this count on 10 00 at 10:00 a.m. or within 30 days from the ersonally before this court on 19-05-2023 aid case will be heard and determined as per law, in your absence. for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district tice&district=ludhiana JMIC Ludhiana

Criminal Courts, Ludhiana

Ludhiana s well as other case in formation is available ttp://districts.ecourts.gov.in/ludhiana Kotak Mahindra Bank Ltd

Meena Begum CNR NO: PBLD03-014174-2019 Date: 19-05-2023

Publication Issued To: Meena Begum Address- Hno 68 Saniay Camp BLK A Dakshin Puri Extn Delhi

Whereas it has proved to the satisfaction f this court that you, the above named accused/accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal codure is hereby with a direction that you should appear personally before this court on 19-05-2023 personally before this court on 19-05-202 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in case of default on you part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. for details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_

notice&district=ludhiana JMIC Ludhiana

जनसत्ता

क्लासीफाइड PUBLIC NOTICE

client Mrs Mithlesh W/o Mr Dharampal R/ Rzu- 28a, Nanda Block, Mahavir Enclave, New Delhi-110045 has disowned and disinherited her elder son Vikas and his wife Akansha and Younger Son Ravi and his Wife Raini from her all moveable and immoveable properties and assets.. Both of them are not under the control of my clien and regularly threatening her to implicate in false criminal cases, my client is having no concern with them in any manne whatsoever. If anybody dealing with them will do so at his/her own risk, cost and consequences and my client and their other family member shall not be held liable for their any of act or deeds

Akshansh Sharma, Advocate PUBLIC NOTICE

Jeneral Public is nereby informed that my clients Smt. Sunita Anand and St. Ravinder Mohan Anand both R/o Flavo. 171, Plot No. 6A, Vishwa Apartments, Police Station Sector-2: Bagdola, Raj Nagar-II, South Wetebelhi, Delhi-110077, have severed a behir relations with their can Sh. Am treatment. Both of my above nar ents, have also disowned barred their son and his wife, fi their movable and immova operties. Anybody dealing with Anuj Anand along with his wife will do
to at his/her/their own risk an
esponsibilities and my clients will no
the responsible for any act does no responsibilities and ..., responsible for any act, deed of aling done by Sh. Anuj Anand an

Sudhanshu Madan (Advocate 111, Sector-12A, Dwark New Delhi-7

PUBLIC NOTICE

public that I Megha Chopra W/O Bhani Chopra r/o M-140 GK-2, New Delhi, w have lost the Original Provisiona Allotment Letter No.JGNPKP10J033 dated 25/04/2011. Issued by M/s Jaiprakash Associates Ltd. in resp of unit bearing No.PKP001J033 in Kensington Park Plots project, situate at Jaypee Greens Noida/ Greate Noida/ Sports City on dated 15/03/2023. Any one finding the above documents is requested to kindly retur the same to me or the Company. Name: Megha Chopra

Address: M-140 GK-2 New Delhi Email id: roop.singh@rategain.com

Criminal Courts, Ludhiana

next date, purpose of case, orders and judgmen as well as other case in formation is available or ttp://districts.ecourts.gov.in/ludhiana Kotak Mahindra Bank Ltd Vs

Suman CNR NO: PBLD03-032562-2019 Date: 19-05-2023

Publication Issued To: Suman Address- R/o H No 7442 First Floo Gali Teh Mill Ram Nagar Pahar Ganj Swami Ram Tirth Nagar Central New Dehli 110055 Vhereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named ccused/accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you vith a direction that you should appear ersonally before this court on 19-05-2023 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation.

Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence, for details logor to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_ notice&district=ludhiana JMIC Ludhiana

Criminal Courts, Ludhiana

xt date, purpose of case, orders and judgmen s well as other case in formation is available or ttp://districts.ecourts.gov.in/ludhiana Kotak Mahindra Bank Ltd Vs

Mohd Azeem @ Mohd Ajim CNR NO: PBLD03-032550-2019 Date: 19-05-2023 Publication Issued To: Mohd

Azeem @ Mohd Ajim Address- S/o Kayyom Ahamad R/o H. No 104 Lalvara Tehsil Shahabad Rampur 244922 Uttar Pradesh Vhereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named ccused/accused persons can't be served n the ordinary way of service. Hence this proclamation under 82 of code of criminal procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 19-05-2023 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation.
Take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as

per law, in your absence. for details logor

to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district

otice&district=ludhiana JMIC Ludhiana

Criminal Courts, Ludhiana

ttp://districts.ecourts.gov.in/ludhiana Kotak Mahindra Bank Ltd

Uday Veer Singh CNR NO: PBLD03-014175-2019 Publication Issued To: Uday Veer Singh Address- Nagla Pohkara Nagla Kasi Aring Chhata Mathura 281501 UP 02, hotilal prasad r/o 411

alikheda mathura highway mathura 281004 UP Vhereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/accused persons can't be served in the ordinary way of service. Hence this roclamation under 82 of code of crimina procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 19-05-2023 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. ake notice that, in case of default on you part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as ber law, in your absence. for details logon b: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district lotice&district=ludhiana

lotice is hereby given that the undermentior

SL. NO FOLIO NO.

DIL0010464

DIL0028355

DIL0051466

DIL0066604

DIL0033972

DIL0014335

DIL0001322

DIL0009040

DIL0066589

DIL0021424

DIL0047915

DIL0900736

DIL0045319

DIL0903987

15 DIL0904026

17 DIL0046862

17.04.2023

MOTILAL OSWAL

सम्पत्ति /यों का कब्जा प्राप्त कर लिया है।

सह ऋणधारक/जमानतदार का नाम

LXMOFARIDA721-

देवेन्दर कुमार एवं ललिता देवेन्दर

LXMOFARIDA721-

220603485

सुरज कुमार एवं रीता देवी

अनुवाद में त्रुटि या विसंगति होने पर अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

दिनांक: १८.०४.२०२३

shares of FV Rs. 10 each

laim/damages whatsoever it may be.

तिथि / नोटिसों को प्राप्त करने की तिथि के ६० दिन के भीतर आमंत्रित किया था।

ऋण अनुबंध संख्या/ऋणधारक/ डिमांड नोटीस तिथि

5 DIL0043620

4

11

12

13

14

अधिनियम के शीर्षक XXI के भाग-1 के अंतर्गत पंजीकरण के विषय में सचना देने के लिये विज्ञापन

प्रपत्र सं. यआरसी-2

िकम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 374 (बी) तथा कम्पनीज (पंजीकरण के लिए प्राधिकृत) नियमावली, 2014 के नियम

4(1) के अनुपालन में] एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पर्न अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उप-धार (2) के अनुपालन में दिल्ली में रजिस्ट्रार के पास इस आशय का एक आवेदन प्रस्तत किय गया है कि ''आईएमएएपीपीडब्ल्यूईबी एलएलपी एक एलएलपी' को शेयर्स द्वारा एव कम्पनी लिमिटेड के रूप में कम्पनी अधिनियम 2013 के शीर्षक XXI के भाग 1 के अंतर्गत

पंजीकत की जाये। कम्पनी के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है बेवहोस्टिंग कार्यों, अन्य सूचना तकनीक तथा कम्प्यूटर सेवा कार्यों, एनईसी टूर ऑपरेटर कार्यों का व्यवसाय करना।

प्रस्तावित कम्पनी के ड्राफ्ट मेमोरैण्डम तथ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की प्रति सम्पत्ति सं. 12, लेफ्ट साइड, 2रा एवं 3रा तल हौसखास गांव, हौज खास नई दिल्ली, दक्षिण पश्चिमी दिल्ली 110006 में कार्यालय में देखी जा सकती है। एतदहारा सचित किया जाता है कि यदि किर्स

व्यक्ति को इस आवेदन के प्रति कोई आपत्ति हो, वे उसके पंजीकत कार्यालय में कम्पनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से इक्कीस दिनों के भीतर लिखित में अपनी आपत्ति दिल्ली में रजिस्टार के पास जमा करें। हस्ता/ आवेदकों का नाग

सौरभ शंकर सिंह

प्ररूप संख्या आईएनसी-26

30 के अनुसरण में } केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीय निदेशक

उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष के मामले में

चड्डा इंफ्राटेक लिमिटेड (CIN: U72300DL2007PLC170194) , जिसका पंजीकृत कार्यालयः **साइड मुसतील नं. 52** किला न.—6, गांव जौनपुर, नई दिल्ली—110047 में हैं. के मामले मेंआवेदक कंपनी / याचिव

. हेन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 201 की धारा 13(4) के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है जेसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय **"राष्ट्री**र राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "उत्तर प्रदेश राज्य" गनांतरित करने के लिए 10 मार्च 2023 व मंकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम जापन में संशोध ही पष्टि की मांग की गई है। पनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतर

पर भी भेजें ।

पाइंड मुसतील नं. 52 किला न.—6, गांव जौनपुर नई दिल्ली–110047

आवेदक के लिए और आवेदक की ओर रं चहा इंफ्राटेक लिमिटेड

प्रपत्र क्र. आयएनसी-26

(कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में) क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली के माध्यम से केंद्र सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम 2013 की घारा 13 की उपधारा (4) एवं कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के अनुच्छेद (ए) के मामले में।

टुडेज हेल्थकेअर इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (CIN: U85100DL2009PTC386284) कार्यालय, दूसरी मंझिल, न्यू ब्लॉक, आर. के. खन्ना टेनिस स्टेडियम, डीएलटी कॉम्प्लेक्स, 1 अफ्रिका ॲव्हेन्यु, नई दिल्ली — 110029 के मामले में।

तशा

आवेदक कंपनी आम जनता को इस द्वारा सूचित किया जाता है कि, दिनांक 14 अप्रैल, 2023 को आयोजित असाधारण सभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी उनके अधिसंघ संस्थापन प्रलेख में परिवर्तन करने हेतु मान्यता प्राप्त करने के लिए कंपनी क्षेत्रिय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के माध्यम से केंद्र सरकार को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 अंतर्गत आवेदन देना प्रस्तुत कर रही है ताकि कंपनी को उनक पंजीकृत कार्यालय ''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली'' से कंपनी निबंधक, अहमदाबाद के अधिकार क्षेत्र में "गुजरात राज्य" में स्थलांतरित करना संभव हो सके। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रस्तुत परिवर्तन की वजह से किसी भी व्यक्ती के हितसंबंध बाधित होने की संभावना हो, तो वे उनकी आपत्ति MCA-21 portal (www.mca.gov.in) पर इनव्हेस्टर कम्प्लेन्ट भेजें या भेजने की व्यवस्था करें या पंजीकृत डाक द्वारा भेजें और उसके समर्थन में उनके हितसंबंध एवं विरोध क आधार देते हुए हलफनामा, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी–2, दुसरी मंझिल पं. दिनदयाल अन्त्योदय भवन, दुसरी मंझिल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली 110003 यहाँ पर इस सूचना के प्रकाशन के दिनाक से चौदह दिन के भीतर भेजें और उसकी प्रतिलिपी आवेदक कंपनी को उनके पंजीकृत कार्यालय, दूसरी मंझिल न्यु ब्लॉक, आर के खन्ना टेनिस स्टेडियम, डीएलटीए कॉम्प्लेक्स, 1 अफ्रिक ॲव्हेन्यु, नई दिल्ली – 110029 यहाँ पर भेजें।

टुडेज हेल्थकेअर इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड

ompany have been reported to be lost or misplaced.

CERTIFICATE NOs. SHARES DISTINCTIVE Nos.

3000

500

500

100*

10*

1000

100*

40

100*

100*

1000

3000

100* 1000

100*

100*

For DABUR INDIA LIMITED

(A K JAIN)
E.V.P.(Finance) & Company Secretary

बंधक संपत्ति/यों का विवरण

अधिकृत अधिकारी

(मोतीलाल ओसवाल होम फायनेंस लिमिटेड)

१५-०४-२०२३ ३३३, चोपड़ा पट्टीराधा, कृष्ण मंदिर, गुड़गांव, हरियाणा, दिल्ली

१२-०४-२०२३ वाका मौजा, गौंची तहसील बल्लभगढ़, अराजी खसरा नंबर ६/२२/२, प्लॉट नंबर २२, फरीदाबाद, हरियाणा १२१००४

मोतीलाल ओसवाल होम फायनेस लिमिटेड

रिज. कार्यालयः मोतीलाल ओसवाल टॉवर, रहीमतुद्धा सयानी रोड, परेल एसटी डिपो के सामने प्रभादेवी, मुंबई – ४०० ०२५, दूरभाषः (०२२) ४७१८९९९९

वेबसाईट : <u>www.motilaloswalhf.com.</u> ई—मेल : hfquery@motilaloswal.com

नामः अमरिन्दर पाल सिंह पदनामः निदेशक DIN: 03426338

Regd. Office: 8/3, Asaf Ali Road, New Delhi - 110 002
Tel. No. - 011-23253488, Fax No. - 011-23222051

NOTICE

NAME

KRISHAN NATARAJAN

RAKESH KUMAR SRIVASTAVA

VINESH KUMAR MAHESHWARI

NILAM THAKKAR

ASHOK KUMAR GUPTA

KAVITA JHURANI

YOGESH BABUBHAI

KISHANDWALA

DINESH SANGHVI

SEJAL SANGHVI

VYOM SHAH

BALKRISHNA N BAHETI

VIJAYALAKSHMIT

HAMOOD AHMED SIDDIQUI

PRADEEP N PANCHOLI

ARHAY MADAN URANKAR

SWATI ABHAV URANKAR

JOHN D SOUZA (Deceased

PRAVINCHANDRA BABUBHAI KISHANADWALA

DABUR INDIA LIMITED

Website - www.dabur.com; e-mail: investors@dabur.com

69142

81226

105642

106761

32731*

2623*

107723

105808

13040*

106737

25424*

57674*

88109

73708

107755

35721* 81989

60775*

60736³

72870

Any person who has a claim or lien or interest in the above shares and having any objection to the issue of letter of confirmation towards issue of duplicate share certificates, in lieu of the above, is requested to notify the same to the Company at its Registered Office latest by 30.04.2023,indicating the nature of the claim, lien or interest of his/her objection to the issue of said letter of confirmation, through an affidavit duly attested.

In case company does not receive any objection within aforesaid period it shall proceed with the issue of said Letter of Confirmation, in lieu of the above mentioned lost share certificates without entertaining any

The submission of documents by the members to the company shall be deemed to be completed on 30.04.2023 being last date of receipt of objection, if any, by the company on the above shares.

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति/यों के लिए)

चंकि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड (औपचारिक रूप से एस्पायर होम फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रूप में जाना जाता

है) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय आस्तियों के पुनर्गठन के अधीन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम २००२ के नियम ८

(१) की पालना और धारा १३ (१२) सहपठित उल्लेखित नियम ३ के प्रतिभित्त हित (प्रवर्तन) नियम २००२ के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते ह

प्रत्येक खाते के सामने अंकित तिथि को सम्मानित ऋणधारकों को मांग पत्र जारी कर प्रत्येक खाते के सामने अंकित राशि के भुगतान के लिए नोटिसों की

ऋणधारक राशि का भगतान करने में असफल रहे हैं. अत: ऋणधारकों व जनसामान्य को सचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की

धारा १३ (४) सहपठित उक्त नियमों के नियम ८ के अन्तर्गत उसे मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक खाते के सामने अंकित तिथि को नीचे उल्लेखित

ऋणधारकों को विशेष रूप से एवं जन सामान्य को चेतावनी दी जाती है कि इस सम्पत्ति/यों के साथ किसी तरह का सौदा न करें और इस सम्पत्ति/यों के साथ कोई भी

सौदा राशि व ऋण अनुबंध के अनुसार ब्याज के लिए मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार का विषय होगा। ऋणधारक का ध्यान अधिनियम के खंड

कब्जा लेने की

तारीख

१३ के उप-खंड (८) के प्रावधानों की ओर दिलाते हए उन्हें उपलब्ध समय में सरक्षित आस्तियों को मक्त करवाने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

एवं राशि

09-08-2023

5. **१०४७६३४**/

०८-१२-२०२२ के लिए

रु. १८५२२५६/-

हस्ताक्षर /-

हस्ताक्षर /-नामः विमल अरोरा पदनामः निदेशक DIN: 07386547

30965001-30966000

604100603-604101102

906420216-906421715

33024001-33025000

906121306-906124305

902335947-902338946

904424064-904424563

25581951-25582050*

13617449-13617458*

906335666-906336665

902681847-902684846

23612851-23612950*

904398434-904398473

24851251-24851350*

28076251-28076350*

605984808-605985807

906406716-906409715

25880951-25881050* 601709549-601710548

28386351-28386450*

28382451-28382550*

2000 35107591-35109590

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए

द्द्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह कंपर्न ने यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है त

ाह व्यक्ति या तो **निवेशक शिकायत प्ररूप फाइ**र कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) जेसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध व रण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्री नेदेशक को इस सुचना के प्रकाशन की तारीख चौदह (14) दिनों के भीतर **क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर्र** क्षेत्र. कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी–2 विंग, दूसर तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली—110003 पर पंजीकृ डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदव pंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय प

गुरजीत सिंह चहु दिनांक : 17.04.2023 (निदेशक

डीआईएन : 01381438 **स्थान** : नई दिल्ली

अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा (धारा 82 सीआरपीसी देखिए)

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की

सार्वजनिक सूचना

क्रेडेन्ट ग्लोबल फाइनांस लिमिटेड

(पूर्व में ऑरैकल क्रेडिट लिमिटेड)

CIN: L65910DL1991PLCO43281

पंजी० कार्यालय: फ्लैट नं. बी-502, 5वां तल, बी-विंग, स्टेट्समेन हाउस 148 बाराखम्बा रोड, कनॉट

प्लेस, नई दिल्ली-110001

कार्पो. कार्या. : छठा तल-609, सी/66, जी ब्लॉक, बीएंड सी विंग वन बीकेसी. बैंक ऑफ बडौद

के सामने, बान्द्रा (ई), मुम्बई-400051, एमएच आईएन,

इंमेलः compliance@credentglobal.com, वेबसाईटः www.credentglobal.com

त्रांक एस 1115/सी.एम.एस V1/05.15.018/2022-23 तिथि 09 फरवरी, 2023 के माध्यम से कम्पनी के नाम

रेवर्तन के लिये भारतीय रिजर्व बैंक (भा.रि.बैं) से प्राप्त स्वीकृति पत्र के अनुपालन में सार्वजनिक सूचना/एतद्वार

नूचित किया जाता है कि मैं. क्रेडेन्ट ग्लोबल फाइनांस लिमिटेड (पूर्व में औरेकल क्रेडिट लिमिटेड), कम्पनी

ू अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित कम्पनी तथा जो प्रमाणपत्र संख्या 14.00242 के माध्यम से गैर-बैंकिंग वित्त

म्पनी के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकृत है जिसका पंजी० कार्यालयः फ्लैट नं. बी-502, 5वां तल, बी-

विंग, स्टेट्समेन हाउस 148 बाराखम्बा रोड, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 में है, वे कम्पनी का नाम मै. ऑरेकल क्रेडिट लिमिटेड से परिवर्तित कर मै. क्रेडेन्ट ग्लोबल फाइनांस लिमिटेड कर दिया गया है जो कम्पनी रजिस्ट्रार,

आरओसी दिल्ली द्वारा जारी पंजीकरण के नवीन प्रमाणपत्र तिथि ०६ अप्रैल, २०२३ के अनुपालन में है। यह आपव

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त नावेद अख्तर पता 2675 सतघरा, मोहल्ला नियारियन, जी.बी. रोड़ दिल्ली-110006 ने सीसी सं. 3392/2019 धारा 138 एनआई एक्ट के तहत थानाः लाहौरी गेट दिल्ली के अधीन दंडनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारंट को यह लिख कर लौटा दिया गया है कि उक्त **नावेद अख्तर** मिल नहीं रहा है और मुझे समाधान प्रद रूप मे दर्शित कर दिया गया है कि उक्त नावेद अख्तर फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है)। अतः इसके द्वारा उदघोषणा की जाती है कि सीसी सं. 3392 / 2019 धारा 138 एनआई एक्ट के तहत थानाः लाहौरी गेट, दिल्ली के उक्त नावेद अख्तर से अपेक्षा की जाती है कि वे इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक 18.05.2023 को या इससे पहले हाजिर हो।

> भुजाली महानगर दण्डाधिकारी (एनआई एक्ट)-01 (सेन्ट्रल) कमरा न. 201. द्वितीय तल, न्यायालय उपभवन-॥ तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली

DP/3500/N/2023

गनकारी तथा अभिलेखों के लिये है।



महाराष्ट्र मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि. (केंद्र शासन और महाराष्ट्र शासन का संयुक्त उपक्रम)

101, दी ओरियन, डॉन बास्को युवा केंद्र के सामने, कोरेगाव पार्क पुणे 411001. दूरध्वनी क्र.:020-26051074

निविदा सुचना क्र.P1PD-17/2023 दिनांक 18.04.2023 <u>गर्य का नाम:</u> पुणे मेट्रो रेल्वे परियोजना स्वारगेट मेट्रो स्थानक के पास पर्वती टीपी स्कीम का अंतिम प्लाट सं

९९ का सार्वजनिक और निजी साझेदारी (डीबीएफओटी) तत्व के आधार पर विकास और ऑपरेशन्स

अनुज़प्ति का प्रवर्तन की तिथि से २४ वर्ष जिस में २ साल के कंस्ट्रक्शन अवधि का समावेश है. इस अवधि में ३० वर्ष त बढ़ोतरी हो सकती है लेकिन वह पीएमसी के शर्तों के अधीन और लीज में बढ़ोतरी के लिए अंशतः भृ

निविदा रू. ५९.000 / - जीएसटी के साथ, नॉन रिफंडेबल जो इ-पेमेंट के माध्यम से क्रेडिट कार्ड / डेबिट क नेट बँकिंग के माध्यम से जो इ-निविदा पोर्टल में उल्लेखित प्रक्रिया के अनुसार भूगतान करना आवश की कीमत रु. ८२,००,००० /- (रुपये बयासि लाख मात्र) जिस का भुगतान निम्नलिखित के अनुसार क निविदा

सुरक्षा आवश्यक है। रू. ६५,६०,०००/ – बँक गॅरंटी के स्वरुप में जो शेड्युल कमर्शिअल बँके के माध्यम से बोली आं तिथि से २४० दिनों के लिए वैध। रू. १६,४०,०००/ - ऑनलाईन पेमेंट मोड के माध्यम से जो महा मेट्रो के इ निविदा पोर्टल पर उपलब्ध है

इच्छूक बोलीदाता पुणे मेट्रो रेल का संकेतस्थल <u>www.punemetrorail.org</u> देख सकते है तथा बोली प्रपत्र डाउनलोड कर सकते है तथा निविदा के बारे में अधिक जानकारी ईं–निविदा पोर्टल <u>https://mahametrorail.etenders.in</u> रें २४/०४/२०२३ को शाम १६.०० बजे से २४/०५/२०२३ को शाम १६.०० बजे तक महामेट्रो ई–निविदा पोर्टल से प्र

महा मेट्रो, हरित मेट्रो

(खरेदी एवं करार). पीएमआरपी महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉपॉरेशन लिमिटेड

🐠 🔤 एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (ए शोड्युल्ड कमर्शियल बैंक)

रजिस्टर्ड ऑफिसः 19-A, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड्, जयपुर-302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381

परिशिष्ट 🛚 (देखें नियम ८ (१) कब्जा सूचना)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता एयु स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (ए शेड्युल्ड कमर्शियल बैंक) का प्राधिकत अधिकारी होते हुए ''वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पनर्गठन और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 का सपठित नियमों के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में मांग सूचना पत्र दिनांक 11 **मई 2022** को संदर्भ संख्या SME/SAR/13-2/MAY-22/06 ऋण खाता संख्या: 1921244224547820 निर्गमित की जिसमें माँग करते हुए ऋणी/ सह-ऋणी/ बंधककर्ता/ जमानतदार **मैसर्स ओम साई गारमेंट्स जरिए** प्रोपराइटर श्री दीना नाथ (ऋणी), श्री दीना नाथ पुत्र श्री पत राम (जमानतदार/ सह-ऋणी), श्रीमती शशी पत्नी श्री दीना नाथ (जमानतदार/ बंधककर्ता) को नोटिस में वर्णित के लिए रूपये 7.24.859.89/- (सात लाख चौबीस हजार आठ सौ उनसठ व नवासी पैसा मात्र) दिनांक 10 म 2022 तक कुल देय (जिसमे शामिल मूलधन, ब्याज, पेनल्टी एवं अन्य शुल्क) सम्पूर्ण बकाया राशि के भुगतान तक भविष्य का ब्याज व शुल्क अतिरिक्त की राशि इस नोटिस की प्राप्ति की दिनांक से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिये कहा गया था।

ऋणी ⁄ बंधककर्ता के वह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणी ⁄ बंधककर्ता एवं समान्यजन को एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) तथा संपठित उक्त नियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा **15 अप्रैल 2023** को अधिग्रहण कर लिया है।

ऋणियों का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिये उपलब्ध समय के सन्दर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

ऋणी/सह ऋणी/बंधककर्ता को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद् द्वारा सम्पत्ति के साथ व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई व्यवहार में के लिए रूपये 7,54,347 (सात लाख चौवन हजार तीन सौ सैंतालीस मात्र) दिनांक 13 **अप्रैल 2023** तक सम्पूर्ण बकाया राशि के भुगतान तक भविष्य का ब्याज व शुल्क अतिरिक्त की राशि एयु स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

स्थावर सम्पत्ति का विवरण

संपत्ति के सभी अभिन्न अंग सम्पत्ति स्थित तीसरी मंजिल छत अधिकार सहित **क्षेत्रफल 50.00 वर्ग गज (कथित सम्पत्ति)** सम्पत्ति बियरिंग नं. डी-49 का हिस्सा, खसरा नं. 898/192 के बाहर, 216 से 218, 243, स्थित गांव चन्द्रावली उर्फ शाहदरा, आबादी गली नं. 12 की, जगतपरी, इलाका शाहदरा, **(काब्बा सन्धार)** नेस्थारा अवारा ने, अन्य निकास्त्री, असरी, त. 8750, 218, 243, स्थार गांव चन्दावली उर्फ शाहदरा, आबादी गली नं, 12 की, जग दिल्ली – 110093, जो कि **शीमती शशी पत्नी श्री दीना नाथ** के स्वामित्व में हैं। गतपुरी, इलाका शाहदरा उत्तर: अन्य की सम्पत्ति. दक्षिण : अन्य की सम्पत्ति

पूर्व : 15 फीट चौड़ी रोड. दिनांकः 15.04.2023

गई राशि को अनदेखा करें

पश्चिम : सम्पत्ति नं. डी-50 प्राधिकृत अधिकारी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

मेसर्स यमुना इंफ्राडेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (पी U70200DL2012PTC233903) की तत्काल वसूली के लिये अयोग्य संपत्तियों के हस्तांतरण/ असाइनमेंट के लिये आईबीबीआई (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम 2016 के विनियम 37ए अंतर्गत सूचना हेतु परिशिष्ट ऑल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 अंतर्गत असाइनमेंट/ह

इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड. 2016 के तहत जारी किए गए नोटिस दिनांक 13.04.2023 के संदर्भ में और इनसॉल्वेंसी . एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम 2016 के विनियम 36 ए अंतर्गत यमुना इंफ्राडेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में) की आसानी से तत्काल वसुली के अयोग्य संपत्तियों के असाइनमेंट/हस्तांतरण हेतु उसके अंतर्गत बनाए गए नियम के संदर्भ में, आवेदनों में शामिल/दावा की गई राशि को निम्नानुसार पुनर्कथित किया गया है, पूर्व में बताई

तत्काल वसूली के लिये अयोग्य संपत्तियों की सूची लॉट क्र. विवरण आवेदनों में शामिल/दावा की गई राशि निम्नलिखित परिहार आवेदनों के संबंध में कानूनी कार्यवाही के तहत संपत्तियों पर अधिकारों और हितों का असाइनमेंट / हस्तांतरण आईए/5653/2021: कॉर्पेरिट देनदार के प्रमोटर /निदेशकों टाग लगभग रुपये 3.83 करोड़ किये गये कुछ अधिमान्य संव्यवहार से बचाव की मांग हेतु कोड की धारा 43 और 44 अंतर्गत परिसमापक द्वारा दायर आवेदन आईए/228/2022 : कॉर्पोरेट देनदार के प्रमोटर्स /निदेशकों द्वार लगभग रुपये 23.45 करोड़ किये गये कुछ धोखाधडी पूर्ण संव्यवहार से बचाव की मांग हेत् कोड की धारा 66 और 67 अंतर्गत परिसमापक द्वारा दायर आवेदन. लगभग रुपये 27.28 करोड़

जायेगी, यदि उक्त प्रस्ताव, एकत्रित तौर पर सभी व्यक्तिगत लॉटस से बेहतर पाया जायेगा, इस संबंध में विवरण प्रक्रिय ग्रानकारी दस्तावेज में उपलब्ध है. इच्छुक पार्टियां प्रक्रिया जानकारी दस्तावेज पाने के लिये परिसमापक से संपर्क कर सकती हैं. इच्छक पार्टियां अपने प्रस्ताव, अधोहस्ताक्षरी के पास अधिकतम **सोमवार, 1 मई 2023** तक जमा कर सकती हैं. असाइनमेंट, इस्तांतरण, आईबीसी 2016 के प्रावधानों के साथ पठित तथा उनके अंतर्गत निर्मित विनियमों और प्रक्रिया जानकारी दस्तावेज के अधीन होगा, असाइनमेंट/हस्तांतरण का फाइनलाइजेशन माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानन न्यायाधिकरण की मान्यता वे

पंजीकृत कार्यालय : खसरा क्र. 432, सिरसपुर गुरुद्वारा मार्केट, बादली दिल्ली उत्तर पश्चिम डीआई 110042 **परिसमापक का पता :** 45-46, बेसमेंट, सत्य निकेतन, मोती बाग – II नई दिल्ली - 110021

FORM NO. 1 **DEBTS RECOVERY TRIBUNAL LUCKNOW** (Area of Jurisdiction - Part of Uttar Pradesh) **OFFICE OF THE RECOVERY OFFICER**

600/1, University Road, Near Hanuman Setu Mandir, Lucknow-226007, PH, 0522-4091208 NOTICE UNDER RULE (2) OF SECOND SCHEDULE TO THE INCOME TAX ACT, 1961 READ WITH SECTION 29 OF THE RECOVERY OF DEBTS AND BANKRUPTCY ACT 1993 CANARA BANK (Erstwhile Syndicate Bank) Sector-62, Noida, Distt. Gautam Budh Nagar)

MR. HITESH BHASIN & ORS. .. CREDIT DEBTOR. **NOTICE FOR DEMAND TO CERTIFICATE DEBTORS**

MR. HITESH BHASIN S/O SHRI CHAMAN LAL BHASIN R/O R-42, E, R-Block, Dilshad Garden, Delhi-110095 **2nd Address**: Flat No. A-203 2nd Floor, Tower-Aqua in the project known as "GAYATRI LIFE" at Plot No. GH-1 F

VERSUS

Sector-16. Greater Noida, Distt, Gautam Budh Nagar MRS. MEENU BHASIN W/O SHRI HITESH BHASIN R/O R-42, E, R-Block, Dilshad Garden, Delhi-110095 2nd Address: Flat No. A-203

2nd Floor, Tower-Aqua in the project known as "GAYATRI LIFE" at Plot No. GH-1 F Sector-16, Greater Noida, Distt. Gautam Budh Nagar. M/S GAYATRI INFRA PLANNER PVT. LTD. Through it's Directors "GYATRI LIFE

Site Office: 1F. Sector-16. Greater Noida (West) Distt. Gautam Budh Naga 2nd Address: Corporate Office: B-121, First Floor, SECTOR-2, NOIDA-201301 (U.P. ...Certificate Debtors This is to notify that a sum of Rs. 64,03,633.42 (Rupees Sixty Four Lacs Three

housand Six Hundred Thirty Three and Forty Two Paisa Only) (Rs. 33,76,600.48/- iا housing loan account-I) And (Rs. 30,27,032.94/- Housing Loan-II) together with pendentlite and future interest @ 09.50% per annum from the date of filing of the Origina Application i.e. 28/11/2018. Till the loan is fully liquidated and cost succeeds and is hereb allowed exparte against you the address as per order dated 28/10/2019 passed by Hon'ble You are hereby directed to pay the aforesaid mentioned amount within 15 days of the

receipt of the notice, failing which the recovery shall be made in accordance with the Recovery of Debts Due to Bank and Financial institution Act 1993. You are hereby ordered to declare on Affidavit the particulars of Assets on or before

You are hereby ordered to appear before the undersigned on 01/06/2023 at 11:00 A.M.

n addition to the sum aforesaid you will also be liable to pay: Details of Cost: Rs. 67.010/-Application Fee Advocate Fee Rs. 40,000/-**Publication Charge**

Clerkage

Rs. 3.000/-1,000/-Rs. 4.000/-Given under my hand and seal on this 13th day of April 2023

Debts Recovery Tribunal, Lucknow

LUMAX क्युमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड DK JAIN सीआईएन: L31909DL1981PLC349793 पंजी. कार्यालय : द्धितीय तल, हरबंश भवन-II, कमर्शियल कॉम्पलेक्स, नांगल राया, नई दिल्ली-110046, दूरभाष : 011-49857832

ईमेल : shares@lumaxmail.com, वेबसाइट : www.lumaxworld.in/lumaxautotech सदस्यों के लिए पोस्टल बैलट की सूचना

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 (**''अधिनियम''**) की धारा 108, 110 और सभी अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हैं, कंपनीज (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और 22, यथा संशोधित ("नियम"), के साथ पठित कार्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं.14/2020, 17/2020, 22/2020, 33/2020, 39/2020, 10/2021, 20/2021, 03/2022 3計 11/2022 क्रमशः दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 15 जुन, 2020, 28 सितंबर, 2020, 31 दिसंबर, 2020, 23 जून, 2021, 08 दिसंबर, 2021, 05 मई, 2022 और 28 दिसंबर, 2022 (सामूहिक तौर पर ''एमसीए परिपन्न''), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम ४४ ("सूचीकरण विनियम")— वर्तमान में लागू कोई भी वैधानिक संशोधनों अथवा इसके पुनः अधिनियमन सहित, और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेट्रीज ऑफ इंडिया ("आईसीएसआई") द्वारा सामान्य बैठक के संबंध में जारी सचिवालयीन मानदंड-2 ("एसएस-2") तथा अन्य लागू कानूनों और विनियमों, यदि कोई है, के अनुसरण में कंपनी ने पोस्टल बैलेट नोटिस में वर्णित संकल्पों के लिए ल्यूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (**''कंपनी''**) के सदस्यों की सहमति / स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सोमवार, 17 अप्रैल, 2023 को पोस्टल बैलेट, ई—मेल के जरिए केवल उन सदस्यों को प्रेषित करने का कार्य पूरा कर लिया है, जिनके नाम शुक्रवार, 14 अप्रैल 2023 ("कट ऑफ तिथि") को सदस्यों के रजिस्टर / लाभार्थी खामियों की सूची में दर्ज हैं तथा जिनके ई-मेल पते डिपाजिटरीज अर्थात नेशनल सिक्यरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") तथा सेंट्रल डिपाजिटरी सर्विसिज (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल") तथा / अथवा कंपनी के रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट अर्थात बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (''बिगशेयर'') के पास पंजीकृत हैं। ऊपर वर्णित एमसीए परिपत्रों के अनुरूप पोस्टल बैलेट नोटिस, साथ में पोस्टल बैलेट फार्म और प्री-पेड बिजनेस रिप्लाई लिफाफे की भौतिक प्रति सदस्यों को नर्ह

भेजी जाएंगी। सदस्यों की सहमति / असहमति की सचना केवल रिमोट ई-वोटिंग सिस्टम ("**ई-वोटिंग**") के जरिए प्राप्त की जाएँगी। कोई व्यक्ति, जो कि कट-ऑफ तिथि को कारोबार के घण्टे बंद होने के समय सदस्य नहीं है, उन्हें इस नोटिस को केवल सचनात्मक उददेश्य के लिए मान लेना चाहिए। कंपनी ने कंपनी के सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए

एनएसडीएल की सेवाएं प्राप्त की हैं। ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया का वर्णन पोस्टल बैलेट नोटिस की टिप्पणियों में किया गया है। श्री मनीष गप्ता, प्रेक्टाइजिंग कंपनी सचिव (एफसीएस 4982) को निष्पक्ष और

पारदर्शी तरीके से पोस्टल बैलेट और ई-वोटिंग प्रक्रिया के संचालन के लिए समीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है किः

पोस्टल बैलेट सूचना डिस्पैच करने/भेजने की समापन तिथि सोमवार 17 अप्रैल, 2023 है।

र्इ—वोटिंग अवधि **बुधवार, 19 अप्रैल, 2023 को प्रातः 9.00 बजे (भा.मा.स.)** प्रारंभ होगी और बृहस्पतिवार, 18 मई, 2023 को अपराह्म 5.00 बजे (भा.मा.स.) पर समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, कट–ऑफ तिथि अर्थात शुक्रवार, 14 अप्रैल, 2023 को भौतिक या अभौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले कम्पनी के सदस्य अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाल सकेंगे। इसके पश्चात ई–वोटिंग मॉडयूल एनएसडीएल द्वारा निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से सदस्यों के मताधिकार की परिगणना शुक्रवार 14 अप्रैल, 2023 (कट-ऑफ तिथि) को व्यापारिक घण्टों की समाप्ति तक उनके द्वारा कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में धारित इक्विटी शेयरों के अनुपात के आधार पर की जाएगी।

पोस्टल बैलेट की सूचना कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.lumaxworld.in/lumaxautotech तथा साथ ही एनएसडीएल की

वेबसाइट अर्थात <u>www.evoting.nsdl.com</u> पर भी अपलोड कर दी गई है। यदि ई-मेल पता कम्पनी/कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं अन्तरण एजेंट/ डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं है तो ई-मेल पता पंजीकृत कराने और ई—वोटिंग हेतु लॉगिन ऑईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करने के लिए कृपया

निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन करें: a) भौतिक माध्यम से शेयर धारण करने वाले सदस्य जिन्होंने अपने ई—मेल पते कम्पनी के साथ पंजीकृत / अपडेट नहीं कराये हैं वे रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेंट (आरटीए), बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के पास

vinod.y@bigshareonline.com पर लिखकर इसे पंजीकृत करा लें। अभौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य कृपया अपने संबंधित डिपॉजिटरी भागीदार(रों) के साथ अपने ई—मेल पते पंजीकत / अपडेट करायें। ई-मेल पते के सफल पंजीकरण के बाद, सदस्य से अनुरोध प्राप्त होने पर ई—वोटिंग यूजर आईडी तथा पासवर्ड आपके ई**—**मेल पते पर भेज दी जाएगी।

किसी पूछताछ के लिए सदस्य <u>shares@lumaxmail.com</u> पर लिख सकते हैं। किसी भी पूछताछ के लिए सदस्य https://www.evoting.nsdl.com पर Frequently Asked Questions (FAQs) कां संदर्भ ले सकते हैं अथवा एनएसडीएल से 022 - 4886 7000 और 022- 2499 7000 (टोल फ्री) पर कॉल

कर सकते हैं या <u>evoting@nsdl.co.in</u> पर ई—मेल अनुरोध भेज सकते हैं। vii. ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए सदस्य निम्नलिखित से संपर्क कर सकते हैं:--

सुश्री सरीता मोटे नेशनल सिक्योरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड

संपर्क कर सकते हैं:--

यूनिटः ल्युमैक्स ऑटो टैक्नोलॉजिस लिमिटेड फोनः 022-4886 7000 और 022-2499 7000 | ई—मेलः <u>evoting@nsdl.co.in</u> viii. ई-वोटिंग सहित पोस्टल बैलेट के संबंध में किसी भी शिकायत के लिए सदस्य

राजेश कुमार गुप्ता उपाध्यक्ष और समूह प्रमुख (सचिवीय, कानूनी और आंतरिक लेखा परीक्षा) ल्यमैक्स ऑटो टैक्नोलॉजिस लिमिटेड

फोनः +0124-4760000 | ई—मेलः <u>shares@lumaxmail.com</u> पोस्टल बैलेट (ई-वोटिंग के माध्यम से) का परिणाम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर **शनिवार 20 मई, 2023 को 5.00 बजे अप. (भा.मा.स.)** अथवा इससे पहले घोषित किया जाएगा। संवीक्षक की रिपोर्ट सहित पोस्टल बैलेट के परिणाम कम्पनी की वेबसाइट अर्थात <u>www.lumaxworld.in/lumaxautotech</u> तथा एनएसडीएल की वेबसाइट अर्थात <u>www.evoting.nsdl.com</u> पर भी प्रदर्शित किए जाएंगे। ये परिणाम साथ ही साथ स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित

किए जाएंगे, जहां कंपनी के शेयर सचीबद्ध हैं। बोर्ड के आदेश से ल्युमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

राजेश कुमार गुप्ता उपाध्यक्ष और समूह प्रमुख (सचिवीय, कानूनी और आंतरिक लेखा परीक्षा)

स्थान : गुरूग्राम तिथि : 17 अप्रैल, 2023 आईसीएसआई सदस्यता संख्याः A8709

समेकित लॉट (अर्थात लॉट 1 और लॉट 2 एकत्रित तौर पर) (दोनों आईए और आईए) लॉट क्र. 3 के लिये प्रस्ताव जमा करनेवाले निवेशक को व्यक्तिगत लॉट्स हेतु सभी प्रस्तावों पर वरीयता व

वे सभी आवेदक जिन्होंने विनियम 37ए दिनांक 13 अप्रैल 2023 अंतर्गत सूचना के अनुपालन में अपने प्रस्ताव पहले ही जमा कर दिये हैं, उन्हें केवल ईमेल और हार्डकापी द्वारा एक पुष्टि भेजने की आवश्यकता है कि उन्होंने इस परिशिष्ट में उल्लिखित पनर्कथित राशि और नियमों और शर्तों पर विचार किया है, जो उन्हें स्वीकार्य है, उन्हें यह

आईबीबीआई/आईपीए-001/आईपी-पी00149/2017-18/10313

संपर्क क्र. : 9811652355 दिनांक : 18.04.2023 ईमेल : liq.yipl@gmail.com, ritaca_1996@yahoo.co.in

नई दिल्ली